

प्रेस नोट
जनपद बस्ती
दिनांक 13.11.2022

पुलिस की वर्दी में कानपुर से कार चुराकर भाग रहे 02 अभियुक्तों को हर्षैया पुलिस एवं थाना छावनी की पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

प्रभारी निरीक्षक हर्षैया श्री शैलेश कुमार सिंह मय टीम एवं थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश कुमार पांडे मय टीम द्वारा अभियुक्त 1. परवेज उम्र पुत्र शमीम उर्फ सलीम निवासी 111/1 शिया मस्जिद कम्पाउन्ड थाना कोतवाली जनपद झांसी तथा 2. रियासत पुत्र आल मोहम्मद निवासी सूर्य नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन, जो कानपुर से Hyundai GRAND i- 10 Sports कार को चुराकर भाग रहे थे, को खटकहिया पुलिस के पास से दिनांक 12.11.2022 कसमय करीब 15.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तों से चोरी गयी कार तथा 01 अदद अवैध तमंचा की बरामदगी के आधार पर थाना हर्षैया पर मु0अ0स0 400/2022 धारा 41,411,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. परवेज उम्र पुत्र शमीम उर्फ सलीम निवासी 111/1 शिया मस्जिद कम्पाउन्ड थाना कोतवाली जनपद झांसी
2. रियासत पुत्र आल मोहम्मद निवासी सूर्य नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन

संक्षिप्त का विवरण-

थाना हर्षैया एवं थाना छावनी पुलिस टीम द्वारा 02 लोगो द्वारा कानपुर से Hyundai ग्रैंड i-10 स्पोर्ट्स कार रंग मैरून को चुराकर भागने की सूचना प्राप्त होने पर नि0 श्री शैलेश कुमार सिंह मय टीम द्वारा बेलाडे शुक्ल के पास विशेषगंज मार्ग पर पहुँचकर नेशनल हाइवे की तरफ से

आने वाले वाहनों की चेकिंग की जाने लगी कि कुछ ही देर में एक मैरून कार तेजी से आते दिखी जो हम लोगो को देखकर बचने के लिए अचानक खटकहिया गाँव की ओर तेजी से मोड़कर भागा, जिसका हँरैया पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो वे लोग खटकहिया पुलिस के पास अचानक कार को रोककर गाड़ी से उतरकर तेजी से भागने लगे, जिन्हे हमराहियों एवं थाना छावनी की पुलिस टीम के सहयोग से घेरघार कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी दिनांक 08/11/2022 को पाण्डू नगर, कानपुर से हम लोगो ने मिलकर चुरायी थी। इस गाड़ी पर लगी असली नम्बर प्लेट UP32GE0058 को तोड़कर फेंक दिये तथा बचने के लिये नकली व फर्जी नम्बर प्लेट कूटरचित तरीके से तैयार करके UP32HK7737 का नम्बर प्लेट गाड़ी पर लगा लिये थे, जिसे आज हम दोनो लोग गोरखपुर होकर नेपाल बार्डर नौतनवां जाकर बेचने की फिराक में थे इसिलिए आप लोगो को देखकर बचने के लिए भागने की कोशिश किये लेकिन आप लोगो द्वारा हम दोनो को पकड़ लिया गया। पकड़ा गया व्यक्ति परवेज यह भी बता रहा है कि मैं पुलिस विभाग में हे0का0 के पद पर नियुक्त था, करीब 05 साल पहले नौकरी से बर्खास्त हो गया हूँ तथा मैं वर्दी पहनकर भी अपराध करता हूँ। आज भी मैं वर्दी पहनकर ही कार को चलाते हुए टोल प्लाजा छावनी तोड़कर भागने के बाद रास्ते में मैंने वर्दी उतार दिया था ताकि छुपने एवं भागने में आसानी रहे। बर्खास्त होने के बाद से आर्थिक हालात खराब होने के कारण हम दोनो लोग मिलकर गाड़ियो व सामानों की चोरी कर सस्ते दामों में बेचकर अपना व अपने घर का खर्चा चलाते हैं।

परवेज का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 89/05 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।
2. मु0अ0सं0 1040/06 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 1041/06 थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 93/06 धारा 302 IPC थाना स्वरूप नगर जनपद कानपुर नगर।
5. मु0अ0सं0 5661/2010 धारा 302/394 IPC थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।

6. मु0अ0सं0 74/11 धारा 174A IPC थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।
7. मु0अ0सं0 637/2019 धारा 379/411/413/420 IPC थाना नवाबाद जनपद झांसी।
8. मु0अ0सं0 183/19 धारा 302 IPC थाना ग्वाल टोली जनपद कानपुर नगर पश्चिमी।
9. मु0अ0सं0 634/19 धारा 379/411/413 IPC थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर पश्चिमी।
10. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 41,411,419,420,467,468,471 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हरैया जनपद बस्ती।

अपराधिक इतिहास रियासत-

1. मु0अ0सं0 74/11 धारा 174A IPC थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।
2. मु0अ0सं0 5661/2010 धारा 302/394 IPC थाना कोतवाली जनपद उन्नाव।
3. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 41,411,419,420,467,468,471 IPC थाना हरैया जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. SHO शैलेश कुमार सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती।
2. श्री दुर्गेश कुमार पांडे थानाध्यक्ष थाना छावनी जनपद बस्ती।
3. का0 विश्वजीत विश्वकर्मा थाना हरैया जनपद बस्ती।
4. का0 हरिकेश निषाद थाना हरैया जनपद बस्ती।
5. का0 दुर्गेश सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती।
6. का0 पवन यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।
7. का0 हरेन्द्र यादव थाना हरैया जनपद बस्ती।
8. का0 प्रद्युम्न सिंह थाना हरैया जनपद बस्ती।



